



Science Day - 2023





The Department of Physics enthusiastically observed National Science Day – 2023, commemorating the ground-breaking discovery of the 'Raman Effect' by the illustrious scientist Sir C.V. Raman on February 28, 2023. Dr. Brijesh Chauhan (HOD, Deptt. of Physics) delivered a captivating lecture focused around the theme 'Fostering Global Wellbeing through Science'. His discourse extensively explored the potential of science as a catalyst for enhancing global welfare, while also introducing the students to his pioneering project on extending human longevity. As part of the festivities, an essay competition was orchestrated with the aim of popularizing science and promoting the underlying rationale for observing this significant day. The competition featured a range of stimulating topics, prompting participants to delve into the realm of science's impact on society and its role in shaping a better world.

1. No Poverty/ Zero hunger
2. Good Health and well being
3. Clean water and sanitation
4. Sustainable cities and community
5. Affordable, reliable, sustainable and modern energy.

The winners of the contest were honored with awards by the institution's Principal, Dr. C. B. Mehta. A selection of students from the Department of Physics were graciously invited to partake in the Science Day festivities at St. Bede's College from 28-02-2023 to 01-03-2023, Shimla, in partnership with the Indian Association of Physics Teachers (IAPT) and the Indian Science Congress Association (ISCA). The event revolved around the theme "Explorations in Science and Sustainable Advancement." Roughly twenty students engaged in the commemorative event, taking

part in both the celebration and a stimulating quiz competition. It was a great learning experience for all the students.






Shimla, Himachal Pradesh, India


35VP+MMQ, Navbahar, Chotta Shimla, Shimla, Himachal Pradesh 171002, India

Lat 31.094173°

Long 77.186455°

28/02/23 11:58 AM GMT +05:30

 **GPS Map Camera**




Shimla, Himachal Pradesh, India


35VP+MMQ, Navbahar, Chotta Shimla, Shimla, Himachal Pradesh 171002, India

Lat 31.094054°

Long 77.1866°

28/02/23 01:34 PM GMT +05:30

 **GPS Map Camera**




Shimla, Himachal Pradesh, India

35VP+MMQ, Navbahar, Chotta Shimla, Shimla, Himachal Pradesh 171002, India

Lat 31.094132°

Long 77.186479°

28/02/23 01:41 PM GMT +05:30

 **GPS Map Camera**




Shimla, Himachal Pradesh, India

35VP+MMQ, Navbahar, Chotta Shimla, Shimla, Himachal Pradesh 171002, India

Lat 31.094182°

Long 77.186537°

28/02/23 02:38 PM GMT +05:30

 **GPS Map Camera**



Compiled & submitted by: Dr. Kirti Singha